



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 04 पटना, बुधवार, 4 माघ 1939 (श0)  
24 जनवरी 2018 (ई0)

विषय-सूची		पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3	
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4—बिहार अधिनियम	---	
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9—विज्ञापन	---	
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	4-4	
पूरक	---	
पूरक-क	5-8	

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं

### कृषि विभाग

#### अधिसूचना

8 जनवरी 2018

सं० 04/सचि०विधि-106/06-115/कृ०—निबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 672, दिनांक 05.06.2017 द्वारा बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी का नाम बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी (बसोका) पटना अभिलिखित किया गया है। साथ ही, इसके Memorandum of Association and Rules and Regulations में भी आवश्यक संशोधन किया गया है।

2. बिहार स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी (सम्प्रति बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, बसोका) के गठन से संबंधित निर्गत पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या 1935, दिनांक 04.04.2013 द्वारा गठित शासी निकाय का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

3. बसोका (बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी) के नियम 6 में शासी निकाय के सदस्यों का विवरण अंकित है। शासी निकाय के मनोनीत सदस्यों में किसानों के दो प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं जिनका कार्यकाल दो वर्षों का होता है। दो वर्षों के बाद नये सिरे से उनका मनोनयन किया जाता है। अब बसोका द्वारा जैविक प्रमाणन का कार्य भी किया जाना प्रस्तावित है, अतः उससे संबंधित किसान को भी मनोनीत किया जाना अपेक्षित है। भारत सरकार के उप आयुक्त, गुण नियंत्रण, शासी निकाय के पदेन सदस्य होते हैं। अतएव उनका नाम भी शासी निकाय में शामिल किया जाना है।

4. उक्त तथ्यों के आधार पर शासी निकाय का गठन निम्नवत् किया जाता है:—

क्र.सं.	पदनाम एवं पता	शासी निकाय में धारित पद
1.	कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना	अध्यक्ष
2.	कृषि निदेशक, बिहार, पटना	सदस्य
3.	निदेशक उद्यान, बिहार, पटना	सदस्य
4.	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम, पटना	सदस्य
5.	कुलपति, राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा द्वारा मनोनीत एक प्राचार्य	सदस्य
6.	कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर द्वारा मनोनीत एक प्राचार्य	सदस्य
7.	निदेशक, अनुसंधान, राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	सदस्य
8.	निदेशक, अनुसंधान, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	सदस्य
9.	उप आयुक्त, गुण नियंत्रक, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
10.	अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
11.	क्षेत्रीय प्रबंधक, नेशनल सीड कारपोरेशन, शेखपुरा, पटना	सदस्य
12.	उप निदेशक (शष्य) बीज, बिहार, पटना	सदस्य
13.	उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना	सदस्य
14.	उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण, बिहार, पटना	सदस्य
15.	निदेशक, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, बिहार, पटना	सदस्य
16.	निदेशक, बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, पटना	सदस्य सचिव
17.	श्री हिमांशु कुमार, श्री जी०एस० एग्रो प्राइवेट लिमिटेड साउथ दिघी तालाब गया—823001 (बीज उत्पादक)	सदस्य
18.	श्री ब्रीज बिहारी चौधरी, ग्राम+पोस्ट— बिक्रमगंज, सोन गंगा सीड्स, बिक्रमगंज, रोहतास— बीज उत्पादक	सदस्य
19.	श्री ओम प्रकाश, सल्फा बायो एण्ड एग्राकेम इन्डस्ट्रीज हाजीपुर, वैशाली, (बिहार)— जैविक किसान	सदस्य

5. कृषि उत्पादन आयुक्त की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा।

6. शासी निकाय का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से दो वर्षों के लिए होगा।

आदेश से,

सुधीर कुमार, प्रधान सचिव।

**पर्यावरण एवं वन विभाग**

**अधिसूचनाएं  
12 जनवरी 2018**

सं० 2/बि०व०से०(स्था०)—20/2017—153/प०व०—श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना, प्रमंडल—1 को स्थानांतरित करते हुए उप निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं० 2/बि०व०से०(स्था०)—20/2017—154/प०व०—श्री नरेश प्रसाद, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई को स्थानांतरित करते हुए सहायक वन संरक्षक, कार्यालय—वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना, प्रमंडल—1, बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
**रत्नेश झा**, संयुक्त सचिव।

**Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya**

**Office Order  
The 9<sup>th</sup> January 2018**

No.I- स्था०—72/2017-133—In the light of proposal received from Collector, Jehanabad (letter No. 474 dt. 04/12/2017.) power of certificate officer has been delegated to Sri Dharendra Kumar, District Transport Officer, Jehanabad for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt.07/12/2017

By order,  
Sd./Illegible, Secretary to Commissioner,  
Magadh Division, Gaya.

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय**  
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**  
**बिहार गजट, 45—571+10-डी०टी०पी०।**  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**

# भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण  
सूचनाएं इत्यादि

---

## सूचना

---

सं० 63—मैं, सोनी कुमारी, पति—दिपू कुमार, ग्राम—विश्वम्भरपुर, पो०+थाना—बिहटा, पटना, शपथ सं० 2220/14/10/17, घोषणा करती हूँ कि सोनी कुमारी एवं श्वेता सागर दोनों मेरे ही नाम हैं और मैं दोनों नामों से जानी—पहचानी जाती हूँ।

सोनी कुमारी.

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 45—571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

# बिहार गजट

## का

## पूरक(अ0)

## प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 2/प.1-05/2014—832  
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

संकल्प

22 दिसम्बर 2017

विषय:—कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नव स्थापित मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी के सम्यक संगठन संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यकता आधारित पदों के सृजन, पदों पर नियुक्ति/संविदा के निमित्त अर्हता का निर्धारण, सर्टिफिकेट कोर्स एवं डिग्री कोर्स हेतु छात्रों की अर्हता एवं चयन प्रक्रिया का निर्धारण तथा संस्थान के तत्काल संचालन हेतु गाइड—लाइन की स्वीकृति।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी से बिहार में मिथिला चित्रकला एवं अन्य लोक कलाओं के क्षेत्र में उसके क्रियाकलापों के समग्र विकास, अध्ययन, शोध, अभिलेखीकरण, पोषण, प्रचार—प्रसार एवं समन्वय करने तथा उसके द्वारा राज्य की स्वस्थ लोक सांस्कृतिक परंपराओं के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु एक राज्य स्तरीय स्वायत्त एवं पूर्णतः सम्पोषित मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी की स्थापना की गयी है। संस्थान के सम्यक संगठन एवं संचालन के उद्देश्य से गाइड—लाइन तथा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवश्यकता है।

2. मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी के नियम एवं विनियम (संलग्न) की कंडिका 23 में संस्थान हेतु चिन्हित पद इस प्रकार है— निदेशक—1, उप निदेशक—1, लेखा पदाधिकारी—1, लेखापाल—1, प्रशासी पदाधिकारी—1, सहायक—2, वरीय आचार्य—1, आचार्य—2, कनीय आचार्य—4, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर—10 कुल—24 पद। संस्थान की सेवा नियमावली—2015 (संलग्न) की कंडिका 4 में प्रावधान है कि निदेशक को छोड़कर कर सभी पदों पर नियुक्तियाँ संविदा के आधार पर होंगी तथा निदेशक का पद राज्य सरकार द्वारा पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा। उक्त के आलोक में विभिन्न कोटि के चिन्हित निम्नांकित पदों का सृजन किया जाता है:—

क्र.	संगम ज्ञापन नियमावली के अनुरूप पदनाम	वेतनमान/मानदेय	स्वीकृत पद	चिन्हित पद	सृजन हेतु प्रस्तावित पद
<b>(क) नियुक्ति के पद</b>					
1	निदेशक	PB-3- GP-7600/-	—	01	01
<b>(ख) संविदा आधारित पद</b>					
1	उप निदेशक	50,000 /—प्रतिमाह	—	01	01
2	लेखा पदाधिकारी	30,000 /—प्रतिमाह	—	01	01
3	लेखापाल	20,000 /—प्रतिमाह	—	01	01
4	प्रशासी पदाधिकारी	30,000 /—प्रतिमाह	—	01	01
5	सहायक	20,000 /—प्रतिमाह	—	02	02
6	वरीय आचार्य	50,000 /—प्रतिमाह	—	01	01
7	आचार्य	40,000 /—प्रतिमाह	—	02	02

8	कनीय आचार्य	35,000 /—प्रतिमाह	—	04	04
9	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	15,000 /—प्रतिमाह	—	10	10
योग—			—	24	24

प्रस्तावित पदों के सृजन पर तत्कालिक परिलब्धियों के आधार पर संभावित वार्षिक व्यय ₹ 78,51,000 /— (अठहत्तर लाख एकावन हजार रुपये) मात्र होगा (गणना विवरणी संलग्न)। उक्त सृजित पदों में तात्कालिक आवश्यकता के अनुरूप नियोजन की कार्यवाई की जाएगी। आवश्यकता का आकलन संस्थान के शासी निकाय द्वारा किया जायेगा।

3. पदों पर नियुक्ति/संविदा के निमित्त अर्हता का निर्धारण निम्नवत् होगा:—

- (i) **निदेशक**— मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स (MFA)/मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट (MVA) की डिग्री तथा किसी सांस्कृतिक शैक्षणिक संस्थान में 15 वर्ष कार्य करने का अनुभव अथवा इस क्षेत्र में अनुभव/रुचि रखनेवाले सरकारी पदाधिकारी।
- (ii) **उप निदेशक**— मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स (MFA)/मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट (MVA) की डिग्री या मान्यता प्राप्त संस्थान से कला क्षेत्र की समरूप डिग्री तथा किसी सांस्कृतिक शैक्षणिक संस्थान में 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव।
- (iii) **लेखा पदाधिकारी**— मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री तथा किसी संस्थान में 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव। कला क्षेत्र में डिप्लोमा/डिग्री अथवा अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (iv) **लेखापाल**— बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री तथा किसी संस्थान में 03 वर्ष कार्य का अनुभव। कला क्षेत्र में डिप्लोमा/डिग्री अथवा अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (v) **प्रशासी पदाधिकारी**— किसी विषय में स्नातक की डिग्री तथा किसी भी संस्थान में प्रशासनिक कार्य का 05 वर्ष का अनुभव। कला क्षेत्र में डिप्लोमा/डिग्री अथवा अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (vi) **वरीय आचार्य**— मधुबनी चित्रकला के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार या राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य सरकार के लार्ड टाईम एचीवमेंट पुरस्कार या शिल्प गुरु विजेता। 50 अंक उपलब्धियों पर एवं 50 अंक साक्षात्कार पर दिये जायेंगे।
- (vii) **आचार्य**— मधुबनी चित्रकला के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त होना आवश्यक है। 50 अंक उपलब्धियों पर एवं 50 अंक साक्षात्कार पर दिये जायेंगे।
- (viii) **कनीय आचार्य**— मिथिला चित्रकला में राज्य पुरस्कार एवं मधुबनी चित्रकला में सक्रियता तथा विशेष योग्यता का साक्ष्य। 50 अंक उपलब्धियों पर एवं 50 अंक साक्षात्कार पर दिये जाएंगे।
- (ix) **डाटा इन्ट्री ऑपरेटर—10+2** (इंटरमिडिएट) पास एवं एक वर्षीय डी0सी0ए0। Coral draw, Photoshop, word processing या similar application में दक्षता। हिन्दी एवं अंग्रेजी क्रमशः 25 एवं 30 शब्द प्रति मिनट की टाईपिंग स्पीड।
- (x) **होस्टल वार्डन**— मिथिला चित्रकला में राज्य पुरस्कार एवं मधुबनी चित्रकला में सक्रियता तथा विशेष योग्यता का साक्ष्य। 50 अंक उपलब्धियों पर एवं 50 अंक साक्षात्कार पर दिये जाएंगे।
- (xi) **सहायक**— सचिवालय सहायक के सामान योग्यता स्नातक उर्तीण।

3.1 मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी की सेवा नियमावली के अनुसार उपर्युक्त पदों की उम्र सीमा 18 वर्ष से 65 वर्ष तक निर्धारित है। उपर्युक्त कर्मी कम से कम तीन वर्षों की सेवा दे सके, इस कारण सामान्य परिषद द्वारा यह अनुशंसा की गयी कि आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा—62 वर्ष हो।

3.2 उम्र की गणना आवेदन दिये जानेवाले वर्ष की 01 जनवरी से की जायेगी।

3.3 वरीय आचार्य, आचार्य एवं कनीय आचार्य के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं रहेगी, साथ ही इस पर नियुक्ति सरकार के आमंत्रण पर किया जा सकता है ताकि सुयोग्य एवं अनुभवी अभ्यर्थियों का नियोजन किया जा सके।

4. सर्टिफिकेट कोर्स एवं डिग्री कोर्स हेतु छात्रों की अर्हता एवं चयन प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत् होगा:—

(क)—**सर्टिफिकेट कोर्स हेतु**—शैक्षणिक योग्यता—मैट्रिक पास। उम्र सीमा— अधिकतम 35 वर्ष। मिथिला चित्रकला की प्रारंभिक सैद्धांतिक एवं समसामयिक जानकारी से संबंधित 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 02 अंक के होंगे—कुल—40 अंक की लिखित परीक्षा एवं मिथिला चित्रकला की व्यावहारिक परीक्षा (60 अंक हेतु) होगी।

(ख)—**डिग्री कोर्स हेतु**—शैक्षणिक योग्यता— 10+2 पास होना अनिवार्य है। उम्र सीमा— अधिकतम 37 वर्ष। लिखित परीक्षा—40 अंक, व्यावहारिक परीक्षा—50 अंक तथा सर्टिफिकेट कोर्स पास छात्र या मधुबनी चित्रकला में पुरस्कृत छात्र के लिये 10 अंक निर्धारित होंगे।

5. तत्काल संचालन हेतु गाईड लाईन निम्नवत् होगा:—

- i. जबतक निदेशक की स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती है, तबतक जिला पदाधिकारी, मधुबनी संस्थान के प्रभारी निदेशक रहेंगे जो उप निदेशक की नियुक्ति होनेतक सुगम संचालन हेतु प्रभारी उप निदेशक के रूप में जिला में पदस्थापित उपसमाहर्ता में से एक को संस्थान का प्रभारी प्रतिनियुक्त कर संस्थान का संचालन करेंगे।

- ii. प्रतिनियुक्त प्रभारी उप निदेशक संस्थान का दैनन्दीन कार्य यथा—शिक्षण, प्रशिक्षण, भवन, छात्रावास भवन की व्यवस्था, विभाग से समन्वय स्थायी भवन के निर्माण आदि से संबंधित बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० से समन्वय आदि करेंगे।
- iii. छात्रों को प्रतिमाह सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 1,000/— तथा डिग्री कोर्स के लिए 1,500/— रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। होस्टल एवं मेस की व्यवस्था निःशुल्क की जायेगी।
- iv. मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी के लिए निम्नांकित पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है :—
  - A. छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबंधन प्राप्त है। तदालोक में सर्टिफिकेट कोर्स अविलंब प्रारंभ किया जाय।
  - B. तीन वर्ष के डिग्री कोर्स के निमित्त संबंधन हेतु कार्यवाई प्रक्रिया में है। संबंधन प्राप्त होते ही डिग्री कोर्स का संचालन प्रारंभ किया जाएगा।
- v. संस्थान की पूर्णरूपेण स्थापना हेतु भवन निर्माण होनेतक किसी किराये के मकान में छः माह का सर्टिफिकेट कोर्स से शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तदुपरांत डिग्री कोर्स का संबद्धन प्राप्त होते ही डिग्री कोर्स का संचालन किया जायेगा। इसी भांति आवश्यकतानुसार होस्टल के लिए भी किराये के मकान की व्यवस्था कर संचालित किया जायेगा।
- vi. तत्काल सर्टिफिकेट कोर्स संचालन हेतु 04 आचार्य (01 वरीय आचार्य, 01 आचार्य एवं 02 कनीय आचार्य) संविदा पर रखे जाएंगे, इनमें 02 पुरुष एवं 02 महिला आचार्य होंगे। आवश्यकता को देखते हुए 02 कनीय आचार्य में से एक आर्ट हिस्ट्री के लिए चयनित किया जा सकता है।
- vii. आवश्यकतानुसार तत्काल 01 लेखापाल एवं 01 सहायक को संविदा पर रखा जाय।
- viii. आउटसोर्सिंग के माध्यम से मेस, साफ—सफाई, मेंटेनेंस तथा कार्यालय परिचारी की व्यवस्था की जाएगी।
- ix. डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, बेलट्रॉन के माध्यम से प्राप्त किया जाय।
- x. डिग्री कोर्स की संबद्धता प्राप्त होने पर संस्थान के नियम एवं विनियम में चिन्हित पूरे strength के अनुसार संविदा पर नियुक्ति कर उभय पाठ्यक्रमों में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाय।
- xi. किसी भी कर्म की संविदा अवधि 01 वर्ष की होगी, जो समीक्षोपरांत अगले तीन वर्ष तक कार्यकारिणी समिति द्वारा विस्तारित की जायेगी तथा इसके बाद अवधि विस्तार पर सामान्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- xii. आचार्य के लिए संविदा अवधि 03 वर्ष की होगी, जो अगले दो वर्ष तक कार्यकारिणी समिति द्वारा विस्तारित की जायेगी तथा इसके बाद अवधि विस्तार पर सामान्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- xiii. पदधारक या कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति आदि के लिए एक चयन समिति जिला पदाधिकारी, मधुबनी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के एक प्रतिनिधि, जिला प्रशासन, मधुबनी के स्थापना उपसमाहर्ता, मिथिला चित्रकला संस्थान के उप निदेशक, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य या प्रतिनिधि एवं मिथिला कला के दो विशेषज्ञ सदस्य होंगे, जिनका निर्धारण जिला पदाधिकारी स्वयं के स्तर से कर समिति की बैठक आदि आहूत करने का निदेश संस्थान के उप निदेशक को देंगे।
- xiv. पदों पर नियुक्ति एवं छात्रों के चयन में आरक्षण नियम का अनुपालन किया जायेगा।

6. इन पदों के संधारण हेतु मांग संख्या 08 के अधीन बजट शीर्ष 2205—कला एवं संस्कृति—102—कला एवं संस्कृति का संवर्धन—0001—कला और संस्कृति का संवर्धन, विपत्र कोड 08 2205001020001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष—3104 सहायक अनुदान—वेतन में आवश्यक राशि का प्रावधान किया जायेगा।

पदों के वेतनमान/मानदेय, नियुक्ति की अर्हता तत्काल संचालन हेतु गार्ड लाईन आदि के संबंध में दिनांक 16.06.17 को हुए संस्थान के सामान्य परिषद की बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न है। संस्थान की सेवा नियमावली—2015 की कंडिका 5 के प्रावधानों के तहत शासी निकाय में पदों के वेतनमान/मानदेय निर्धारण, नियुक्ति की अर्हता एवं संचालन हेतु गार्ड लाईन आदि की शक्ति निहित है।

7. उपर्युक्त निर्णय में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 11.12.2017 के मद संख्या—35 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

**आदेश:**—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी एक प्रति संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
राज कुमार झा, संयुक्त सचिव।

कृषि विभाग

आदेश

22 दिसम्बर 2017

सं० 2 (गो०)सी०-5 विधि कोर्ट-3/12/1150/कृ०—विभागीय अधिसूचना संख्या-200 दिनांक 14.08.2013 द्वारा श्री इन्द्रदेव पासवान, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा एवं संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) बिहार, पटना (सम्प्रति सेवा निवृत्त) को दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने एवं निंदन की सजा दी गई है।

श्री पासवान द्वारा उक्त अधिरोपित दंड के विरुद्ध पुनर्विलोकन दिया गया है, जिसके समीक्षोपरांत उक्त पुनर्विलोकन आवेदन को निष्पादित करते हुए पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-200 दिनांक 14.08.2013 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

1. उक्त विभागीय अधिसूचना संख्या-200 दिनांक 14.08.2013 की प्रथम कंडिका में उल्लिखित “विभागीय कार्यवाही में प्राप्त संचालन प्रतिवेदन” के स्थान पर “श्री पासवान से प्राप्त स्पष्टीकरण” तथा “द्वितीय कारण पृच्छा की गई एवं” के स्थान पर “स्पष्टीकरण की मांग की गई एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के” पढ़ा जाय।

2. उक्त विभागीय अधिसूचना संख्या-200 दिनांक 14.08.2013 पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 756 दिनांक 19.09.2008 की निर्गत तिथि दिनांक 19.09.2008 की तिथि से प्रभावी होगी।

3. शेष बातें यथावत् रहेगी।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,  
बीरेन्द्र कुमार सिंह, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 45—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>